



### सिटी प्रत्येक वीरवार और शुक्रवार को तय मुलाकात के द्वारा शादी के लाइसेंस जारी करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 जुलाई, 2020) – आज से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, प्रत्येक वीरवार और शुक्रवार को तय मुलाकात के द्वारा, शादी के लाइसेंस जारी करना शुरू करेगी। इससे पहले, शादी के लाइसेंस, बहुत जरूरी या सहानुभूति के आधार पर ही जारी किए जा रहे थे।

शादी का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, निवासियों के लिए निम्नलिखित चरणों को पूरा करना जरूरी है:

1. [यहां \(here\)](#) एक मुलाकात तय करें।
2. [शादी के लाइसेंस संबंधी आवेदन \(marriage licence application\)](#) को, पूरा करके उसका प्रिंट लें और सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र पर दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर किए हुए हैं (डिजिटल हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाते)। केवल एक आवेदक ही तय मुलाकात में शामिल हो सकता है।
3. तय मुलाकात के लिए आते समय, सभी आवश्यक पहचान दस्तावेजों और तलाक के दस्तावेजों (यदि लागू हो) के साथ, पूरा किया और हस्ताक्षर किया हुआ, शादी के लाइसेंस का आवेदन साथ लेकर आएं।

निवासी सभी आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जा सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी आवश्यक दस्तावेज न हो, तो शादी का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। जानकारी, कई भाषाओं में उपलब्ध है।

इस समय सीमित संख्या में मुलाकातें उपलब्ध हैं और बिना तय किए मुलाकातें उपलब्ध नहीं हैं। इस समय सिविल मैरिज सेरेमनीज रद्द रहेंगी।

कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान, निवासियों और स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने के लिए, सिटी के सारे सार्वजनिक काउंटर बंद रहेंगे।

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि सिटी के कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना (मैनडेटरी फेस कवर्गिंग्स) बाइ-लॉ (COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law) के अंतर्गत, सिटी हॉल (City Hall) में आते समय, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनने या चेहरे को ढकने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर जरूरी है।

अधिक जानकारी के लिए या मुलाकात बुक करने के लिए [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।



## Service and Information Update

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)